


इम्युनिटी बूस्टर



पोषक तत्वों की विविधता



ऊर्जा और जीवन शक्ति




तनाव में कमी



**प्रतिरक्षा सहायता** - बेरी विटामिन से भरपूर होते हैं, विशेष रूप से विटामिन सी, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मिश्रित बेरी जूस का सेवन बीमारियों के खिलाफ आपके शरीर की सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकता है।



**पाचन स्वास्थ्य** - बेरी आहार फाइबर का एक अच्छा स्रोत हैं, जो स्वस्थ पाचन का समर्थन करता है और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है। फाइबर तृप्ति की भावना को भी बढ़ावा देता है, वजन प्रबंधन में सहायता करता है।




**एंटीऑक्सीडेंट बूस्ट** - ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी जैसे जामुन अपने उच्च स्तर के एंटीऑक्सीडेंट के लिए जाने जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से निपटने, सूजन को कम करने और कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करते हैं।



**ऊर्जा और जीवन शक्ति** - अकाई बेरी, गोजी बेरी, ब्लूबेरी, चेरी, क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, सी बकथॉर्न, आंवला, मैंगोस्टीन, मोरिंगा, अनार, हरी चाय, नींबू, काला अंगूर, संतरा, नाशपाती, अनानास, गेहूं घास, पालक, आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।

# सामग्री



नोनी - प्रतिरक्षा समर्थन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर संभावित सूजनरोधी गुण।



ड्यूबेरी - एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, हृदय स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक कार्य को बढ़ावा दे सकता है।



गोजी बेरी - एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला, आंखों के स्वास्थ्य का समर्थन करता है।



ब्लूबेरी - संज्ञानात्मक समर्थन, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर।



मॉन्कफ्रूट - पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत, पाचन में सहायता कर सकता है और हृदय स्वास्थ्य का समर्थन कर सकता है।

# सामग्री



क्रैनबेरी - मूत्र पथ के स्वास्थ्य,  
एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी गुणों का समर्थन करता है।



रोज़बेरी - एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, त्वचा के स्वास्थ्य में  
सहायता कर सकता है।



स्ट्रॉबेरी - विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट,  
संभावित सूजनरोधी प्रभाव।



ब्लैक बेरी - संजानात्मक समर्थन,  
एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर।



सी बकथॉर्न - पोषक तत्वों से भरपूर, संभावित  
त्वचा और हृदय स्वास्थ्य लाभ।



जीएमपी प्रमाणित



कीटो अनुकूल



ग्लूटेन मुक्त



आयुष प्रमाणित



प्रीमियम गुणवत्ता




सुरक्षा के लिए लैब में परीक्षण

# Immuno Root

ब्लैकबेरी, गोजी बेरी, शहतूत, मीठी चेरी, क्रेनबेरी, लाल रास्पबेरी, ड्यूबेरी, यंगबेरी और स्ट्रॉबेरी इस शक्तिशाली मिश्रण का आधार बनाते हैं। ये जामुन अपने प्रतिरक्षा-बढ़ाने वाले गुणों, कोशिका की मरम्मत में सहायता और समग्र जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए मनाए जाते हैं। भिक्षु फल चीनी की कमियों के बिना प्राकृतिक मिठास जोड़ता है, जबकि सीबकथॉन, आंवला और मैंगोस्टीन विटामिन सी और एंटीऑक्सिडेंट की प्रचुर मात्रा लाते हैं, चमकदार त्वचा को बढ़ावा देते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं।

हरीतकी और बिभीतकी के अर्क से युक्त, यह बेरी अमृत पाचन और विषहरण में सहायता कर सकता है। अश्वगंधा और गोदू कोला मानसिक स्पष्टता और लचीलेपन को बढ़ावा देते हुए एडाप्टोजेनिक और तनाव से राहत देने वाले तत्वों का योगदान करते हैं। हल्दी और मोरिंगा, शक्तिशाली सूजनरोधी, जूस के स्वास्थ्य प्रोफ़ाइल को और बढ़ाते हैं।





उपयोग कैसे करें ?



उपयोग से पहले बोतल को हिलाएं।



गर्म पानी के साथ  
30 मिलीलीटर जूस  
मिक्स करें



भोजन से पहले  
प्रतिदिन दो बार सेवन करें